



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1944 (श10)

(सं0 पटना 599) पटना, बुधवार, 10 अगस्त 2022

गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना  
8 अगस्त 2022

सं० 6/अग्नि0से0-01-08/2013गृ0आ0-7921—वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5027, दिनांक-17.05.2013 द्वारा सिपाही (आरक्षी) के पद पर नई नियुक्ति के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता (10+2) का प्रावधान करते हुए प्रशासी विभाग द्वारा नियमावली में संशोधन अधिसूचित होने के माह से सिपाही (आरक्षी) कोटि के लिए PB1+₹ 2000 ग्रेड पे, हवलदार कोटि के लिए PB1+₹ 2400 ग्रेड पे एवं ए0एस0आई0 कोटि के लिए PB1+₹ 2800 ग्रेड पे अनुमान्य किया गया है।

वित्त विभाग के उक्त संकल्प के आधार पर विभागीय अधिसूचना संख्या-4573, दिनांक-13.06.2013 द्वारा सिपाही (आरक्षी) के पद पर नई नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता इन्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा समकक्ष कर दिया गया है। विभागीय पत्रांक-1772, दिनांक-04.03.2014 द्वारा अग्नि (सिपाही कोटि) की नई नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता को भी दिनांक-13.06.2013 के प्रभाव से इन्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण-पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री (अंग्रेजी सहित) अथवा आचार्य (अंग्रेजी रहित) प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता लागू मानते हुए अग्निकों का वेतनमान PB1+ग्रेड पे ₹ 2000 अनुमान्य किया गया है।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5027, दिनांक-17.05.2013 द्वारा वेतनमान एवं शर्तों को सामान्य पुलिस (आरक्षी) संवर्ग के अलावे वितंतु आरक्षी एवं अग्निशमन सेवा के संगत कोटि के आरक्षी/कर्मियों के लिए भी प्रभावी किया गया है।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-5027 दिनांक-17.05.2013 की कंडिका-5(2) के आलोक में उक्त संकल्प की कंडिका-5(1)(क, ख, ग) से संबंधित प्रावधान को बिहार अग्निशमन सेवा के संगत कोटि के आरक्षी/कर्मियों पर भी समान रूप से प्रभावी मानते हुए नियमानुसार वेतन/भत्ते की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
**गिरीश मोहन ठाकुर,**  
सरकार के अवर सचिव।

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 599-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>**